



# जरूरी खर्चों के लिए सहायता

अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि वर्क एंड इन्कम आपकी मदद कर सके

अगर आप इस समय काम नहीं कर सकते हैं, आपकी नौकरी छूट गई है, या कम घंटों के लिए काम कर रहे हैं

- तो आपको हमसे भत्ता या कोई और आर्थिक सहायता मिल सकती है।
- अगर आप अपने किराए या अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको कुछ सहायता मिल सकती है- भले ही आप अभी भी काम कर रहे हों या आपकी आमदनी कम हो।
- हम आपकी नौकरी ढूँढने या ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) की तलाश में मदद कर सकते हैं और नई नौकरी शुरू करने से सम्बन्धित खर्चों में मदद कर सकते हैं।

अगर आप बीमार हैं या COVID-19 के कारण काम से छुट्टी लेने की जरूरत है

अगर आपकी COVID-19 के लिए जाँच की जा रही है, तो यह जरूरी है कि जब तक आपके परिणाम वापस न आ जाएं, आप घर पर ही रहें। अगर आप घर से काम नहीं कर सकते हैं, तो आपका नियोक्ता आपको भुगतान करने में सहायता के लिए शॉर्ट-टर्म ऐब्सन्स (अल्पकालिक अनुपस्थिति भुगतान) के लिए आवेदन कर सकता है।

अगर आपको आत्म-अलगाव के लिए कहा गया है क्योंकि आप या आपके सम्पर्क में आए किसी व्यक्ति को COVID-19 है, और आप घर से काम नहीं कर सकते, तो हो सकता है आपके नियोक्ता आपको भुगतान करना जारी रखने में सहायता के लिए लीव सपोर्ट स्कीम (अवकाश सहायता योजना) के लिए आवेदन कर सकें।

अपने नियोक्ता से उपलब्ध सहायता के बारे में बात करें ताकि आपको वेतन मिलना जारी रह सके। अगर आप सैल्फ-इम्प्लॉयड (स्वनियोजित) हैं और घर से काम नहीं कर सकते, तो आप भी इन भुगतानों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपको जरूरी खर्चों के लिए सहायता की जरूरत है

आपकी स्थिति के आधार पर, कई अन्य तरीकों से हम आपकी और आपके परिवार की मदद कर सकते हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए आपको किसी बेनिफिट (भत्ते) पर होने की जरूरत नहीं है, यह कम आमदनी वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध है। हम निम्न में मदद कर सकते हैं:



भोजन



रहने के खर्च  
(किराया, मॉर्गेज, बोर्ड)



बिजली, गैस और  
पानी के बिल या हीटिंग



चिकित्सा और  
दंतचिकित्सा के खर्च

अधिक जानें

चाहे आपके विचार में आप इसके लिए पाल न हों, तो भी अपनी स्थिति पर बात करने के लिए हमें फोन करें।

आप [workandincome.govt.nz](https://workandincome.govt.nz) पर भी देख सकते हैं और **Check what you might get** (जाँच करें कि आप क्या पा सकते हैं) पर क्लिक कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए



[workandincome.govt.nz](https://workandincome.govt.nz) पर जाएं



हमें 0800 559 009 नम्बर पर,

सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक और शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक फोन कर सकते हैं।



MINISTRY OF SOCIAL  
DEVELOPMENT  
TE MANATŪ WHAKAHIATO ORA

WORK AND INCOME  
TE HIRANGA TANGATA